



**मध्यप्रदेश विधान सभा**  
**संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)**  
**गुरुवार, दिनांक 16 जनवरी, 2020 (पौष 26, शक सम्बत् 1941)**  
**विधान सभा पूर्वाह्न 11:07 बजे समवेत हुई.**  
**अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.**

**1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान**

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

**2. निधन का उल्लेख**

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये:-

- (1) श्री बनवारी लाल शर्मा, सदस्य विधान सभा तथा
- (2) श्री रुग्नाथ सिंह आंजना, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री, श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष द्वारा शोकोदगार व्यक्त किये गये.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई तथा सदन द्वारा मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

तत्पश्चात् दिवंगतों के सम्मान में पूर्वाह्न 11.20 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी, 2020 (पौष 27, शक सम्बत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

**भोपाल:**  
**दिनांक: 16 जनवरी, 2020**

**अवधेश प्रताप सिंह,**  
**प्रमुख सचिव,**  
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**